

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या- /XXXI(15)G/20-41(सा0)/2018
दिनांक 26 दिसम्बर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को "मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार 2019-20" हेतु विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नवत चयनित किया जाता है:-

व्यक्तिगत श्रेणी

क्र० सं०	नाम	पदनाम एवं शासकीय पता
1	श्री संदीप कुमार	प्रभागीय वन अधिकारी, कार्यालय प्रभागीय वन अधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, कोट बंगला, उत्तरकाशी।
2	श्री कौस्तुभ चन्द्र जोशी	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, पत्थरखानी, मिथौरगढ़।
3	मोनिका	डिप्टी कलेक्टर, राजस्व विभाग, कैम्प कार्यालय, तह0 मनौली, मुख्यालय - गुरुदाबाज, (अल्मोड़ा)।

सामूहिक श्रेणी

1	श्री शैलेश बगौली एवं सदस्य	सचिव, परिवहन विभाग, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
---	----------------------------	---

सदस्य

(1)	श्रीमती सुनीता सिंह	अपर परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, देहरादून।
(2)	श्री सनत कुमार सिंह	उप परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, देहरादून।
(3)	श्री दिनेश चन्द पटोई	सम्भागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, देहरादून।
(4)	श्री अरविन्द पाण्डेय	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, देहरादून।
(5)	श्री नरेश संगल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून।

सामूहिक श्रेणी

02	श्रीमती राधिका झा एवं सदस्य	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, उरेडा, ऊर्जा पार्क परिसर, इण्डस्ट्रीयल एरिया, पटेल नगर, देहरादून।
----	-----------------------------	---

सदस्य

(1)	कै० आलोक शेखर तिवारी	निदेशक, उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, उरेडा, देहरादून।
(2)	श्री जे०पी० मैखुरी	अनुभाग अधिकारी, ऊर्जा अनुभाग-1, सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

सामूहिक श्रेणी

03	डॉ० आशीष कुमार श्रीवास्तव एवं सदस्य	जिलाधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय, कचहरी परिसर, देहरादून।
----	-------------------------------------	---

सदस्य

(1)	श्रीमती नितिका खण्डेलवाल	मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
(2)	श्री राजीव धीमान	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
(3)	श्री नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल	मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम, ऋषिकेश।
(4)	श्री ए०के० चतुर्वेदी	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश।

2- उपरोक्त चयनित अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण की तिथि एवं स्थान की सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या-825 /XXXI(15)G/20-41(सा०)/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समस्त सदस्य, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार विशेषज्ञ समिति।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण।
7. राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. महानिदेशक, लोक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)।